



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2005/माघ 12, 1926

No. 94]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2005/MAGHA 12, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2005

का.आ. 110( अ ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उक्त भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन अनुसूची में दिया गया है और जो तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जिसके अन्तर्गत मदुरई-कन्याकुमारी खण्ड के 203 कि. मी. से 232 कि. मी. तक के भूखण्ड पर बाईपास भी है, के निर्माण ( चार लेन का बनाने ), अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लिए अपेक्षित है, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा ( 1 ) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, कन्याकुमारी, जिला तमिलनाडु को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात करेगा या अननुज्ञात करेगा;

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा ( 2 ) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और उनका पूर्वोक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 203 कि.मी. से 232 कि.मी. पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन ।

क्रम सं.	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल	
						हेक्टेयर में	वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अगस्थीस्वरम	अलगप्पापुरम	754/3बी	शुष्क	निजी	0.07.27	727
			754/4बी	शुष्क	निजी	0.00.36	36
			754/11बी	शुष्क	निजी	0.17.05	1705
			754/12	शुष्क	निजी	0.06.00	600
			755/5बी	शुष्क	निजी	0.06.25	625
			755/6	शुष्क	निजी	0.11.50	1150
			755/7ए1	शुष्क	निजी	0.04.08	408
			755/7बी1	शुष्क	निजी	0.03.68	368
			755/8ए	शुष्क	निजी	0.00.65	65
			755/9ए	शुष्क	निजी	0.10.05	1005
			755/10	शुष्क	निजी	0.11.50	1150
			755/11बी	शुष्क	निजी	0.04.50	450
			755/15बी	शुष्क	निजी	0.00.51	51
			755/16बी	शुष्क	निजी	0.08.90	890
			755/17	शुष्क	निजी	0.11.50	1150
			755/18ए	शुष्क	निजी	0.06.70	670
			759/4बी	शुष्क	निजी	0.07.35	735
			759/6ए	शुष्क	निजी	0.13.20	1320
			772/1बी	शुष्क	निजी	0.05.58	558
			772/2बी	शुष्क	निजी	0.62.35	6235
			772/3ए	शुष्क	निजी	0.04.90	490
			773/2बी	शुष्क	निजी	0.10.52	1052
			773/4बी	शुष्क	निजी	0.01.15	115
			773/5बी	शुष्क	निजी	0.14.12	1412
			773/6ए	शुष्क	निजी	0.19.52	1952
			773/7ए	शुष्क	निजी	0.17.88	1788
			773/9ए	शुष्क	निजी	0.05.50	550
			774/1बी	शुष्क	निजी	0.00.70	70
			774/2बी	शुष्क	निजी	0.04.22	422
			774/3बी	शुष्क	निजी	0.09.77	977
			774/4	शुष्क	निजी	0.09.50	950
			774/5ए	शुष्क	निजी	0.07.50	750
			774/6ए	शुष्क	निजी	0.02.14	214
			774/7ए	शुष्क	निजी	0.01.37	137
			775/1बी	शुष्क	निजी	0.08.81	881
			775/2ए	शुष्क	निजी	0.11.22	1122
			775/3ए	शुष्क	निजी	0.01.10	110
			775/5ए	शुष्क	निजी	0.01.15	115
			775/6ए	शुष्क	निजी	0.15.45	1545

1	2	3	4	5	6	7	8
			775/7ए	शुष्क	निजी	0.09.56	958
			775/8ए	शुष्क	निजी	0.03.61	361
			776/6बी	शुष्क	निजी	0.00.98	98
			776/10बी	शुष्क	निजी	0.07.75	775
			776/11	शुष्क	निजी	0.07.00	700
			776/12बी	शुष्क	निजी	0.04.15	415
			776/14बी	शुष्क	निजी	0.04.85	485
			776/15	शुष्क	निजी	0.07.00	700
			776/16	शुष्क	निजी	0.07.00	700
			776/17	शुष्क	निजी	0.06.50	650
			776/18ए	शुष्क	निजी	0.06.03	603
			874/2	शुष्क	निजी	0.06.00	600
			874/3	शुष्क	निजी	0.05.50	550
			874/4	शुष्क	निजी	0.05.50	550
			874/5	शुष्क	निजी	0.03.50	350
			874/7बी	शुष्क	निजी	0.13.35	1335
			874/8	शुष्क	निजी	0.15.50	1550
			874/9	शुष्क	निजी	0.03.00	300
			874/10	शुष्क	निजी	0.04.00	400
			874/11	शुष्क	निजी	0.03.50	350
			874/12ए	शुष्क	निजी	0.03.44	344
			874/14ए	शुष्क	निजी	0.00.18	18
			874/15ए	शुष्क	निजी	0.10.35	1035
			874/16ए	शुष्क	निजी	0.03.98	398
			874/17ए	शुष्क	निजी	0.01.08	108
			879/6बी	शुष्क	निजी	0.12.72	1272
			879/15बी	शुष्क	निजी	0.06.50	650
			879/17बी	शुष्क	निजी	0.03.55	355
			879/18	शुष्क	निजी	0.05.50	550
			879/19	शुष्क	निजी	0.08.50	850
			879/20	शुष्क	निजी	0.04.50	450
			879/21	शुष्क	निजी	0.05.50	550
			879/22	शुष्क	निजी	0.07.00	700
			880/2बी	शुष्क	निजी	0.10.55	1055
			880/3बी	शुष्क	निजी	0.00.76	76
			880/5बी	शुष्क	निजी	0.13.66	1366
			880/6ए	शुष्क	निजी	0.14.16	1416
			880/7ए	शुष्क	निजी	0.21.30	2130
			880/8बी	शुष्क	निजी	0.04.20	420
			881/1ए	शुष्क	निजी	0.07.18	718
			881/2ए	शुष्क	निजी	0.05.15	515
			882/1बी	शुष्क	निजी	0.35.33	3533
			882/2	शुष्क	निजी	0.10.00	1000
			882/3बी	शुष्क	निजी	0.03.83	383
			882/4बी	शुष्क	निजी	0.05.60	560
			882/5ए	शुष्क	निजी	0.08.72	872
			882/6बी	शुष्क	निजी	0.15.61	1561
			882/7ए	शुष्क	निजी	0.14.74	1474
			883/12बी	शुष्क	निजी	0.01.89	189

1	2	3	4	5	6	7	8
			968/1बी	शुष्क	निजी	0.48.80	4880
			968/2बी	शुष्क	निजी	0.26.72	2672
			968/3ए1	शुष्क	निजी	0.26.80	2680
			968/3बी	शुष्क	निजी	0.17.00	1700
			968/4ए	शुष्क	निजी	0.09.66	966
			968/5ए	शुष्क	निजी	0.09.50	950
			968/5बी	शुष्क	निजी	0.10.00	1000
			968/5सी1	शुष्क	निजी	0.04.00	400
			973/2	शुष्क	निजी	0.09.50	950
			973/3ए	शुष्क	निजी	0.03.84	384
			973/5ए	शुष्क	निजी	0.06.00	600
			973/6ए	शुष्क	निजी	0.11.86	1186
			973/7ए	नम	निजी	0.05.85	585
			973/8बी	नम	निजी	0.08.84	884
			973/9बी	नम	निजी	0.11.30	1130
			973/19	नम	निजी	0.09.50	950
			973/20	नम	निजी	0.08.50	850
			973/21ए	नम	निजी	0.13.00	1300
			974/1बी	नम	निजी	0.02.55	255
			974/2बी	नम	निजी	0.44.17	4417
			974/3ए	नम	निजी	0.66.00	6600
			974/5ए	नम	निजी	0.02.18	218
			975/5ए2	नम	निजी	0.02.73	273
			975/5बी2	नम	निजी	0.10.83	1083
			975/6बी	नम	निजी	0.04.70	470
			975/7बी	नम	निजी	0.17.90	1790
			986/2बी	नम	निजी	0.16.40	1640
			986/3बी	शुष्क	निजी	0.27.19	2719
			986/4ए	नम	निजी	0.34.70	3470
			986/5ए	नम	निजी	0.12.50	1250
			986/5बी1	नम	निजी	0.19.65	1965
			988/2	नम	निजी	0.46.10	4610
			989/3बी	नम	निजी	0.23.65	2365
			989/4ए	नम	निजी	0.20.26	2026
			994/1	नम	निजी	0.07.50	750
			994/2ए	नम	निजी	0.06.28	628
			994/3बी	नम	निजी	0.40.28	4028
			994/6बी	नम	निजी	0.30.12	3012
			994/10बी	नम	निजी	0.04.40	440
			994/12	नम	निजी	0.08.00	800
			995/1बी	नम	निजी	0.00.31	31
			995/11बी	नम	निजी	0.05.35	535
			995/12बी	नम	निजी	0.02.46	246
			995/13	नम	निजी	0.10.50	1050
			995/15ए	नम	निजी	0.11.27	1127
			996/1बी	नम	निजी	0.19.28	1928
			996/9ए1ए	नम	निजी	0.35.94	3594
			996/9ए2ए	नम	निजी	0.11.97	1197
			996/9बी	नम	निजी	0.07.50	750
			996/10	नम	निजी	0.06.50	650
			996/11	नम	निजी	0.08.00	800
			1006/8बी	शुष्क	निजी	0.01.43	143
			1006/10बी	शुष्क	निजी	0.03.85	385
			1010/1बी	शुष्क	निजी	0.15.16	1516
			1010/2बी	शुष्क	निजी	0.07.27	727
			1010/3	शुष्क	निजी	0.09.00	900

1	2	3	4	5	6	7	8
			1010/4ए	शुष्क	निजी	0.10.65	1065
			1013/1बी	शुष्क	निजी	0.43.15	4315
			1013/2ए	शुष्क	निजी	0.38.39	3839
			1014/2बी	शुष्क	निजी	0.49.35	4935
			1015/2बी	शुष्क	निजी	0.26.90	2690
			1017/1ए1	शुष्क	निजी	0.02.42	242
			1017/1सी1	शुष्क	निजी	0.00.74	74
			1018/1बी	शुष्क	निजी	1.04.35	10435
			1023/1ए2	शुष्क	निजी	0.74.65	7465
			1023/1बी2	शुष्क	निजी	0.14.42	1442
			1023/1सी2	शुष्क	निजी	0.74.72	7472
			1023/2बी	शुष्क	निजी	0.17.05	1705
			1024/1ए	शुष्क	निजी	0.04.72	472
			1024/2ए	शुष्क	निजी	0.14.53	1453
			1025/1ए	शुष्क	निजी	0.03.05	305
			1046/1बी	शुष्क	निजी	0.10.85	1085
			1046/2	शुष्क	निजी	0.09.00	900
			1046/4ए	शुष्क	निजी	0.06.30	630
			1046/5बी	शुष्क	निजी	0.08.05	805
			1046/6ए	शुष्क	निजी	0.03.00	300
			1046/6बी1	शुष्क	निजी	0.04.20	420
			1046/7ए2	शुष्क	निजी	0.08.00	800
			1046/7बी2	शुष्क	निजी	0.16.50	1650
			1046/13बी	शुष्क	निजी	0.02.77	277
			1046/14	शुष्क	निजी	0.20.00	2000
			1046/15	शुष्क	निजी	0.03.00	300
			1047/1ए	शुष्क	निजी	0.11.35	1135
			1049/1बी	शुष्क	निजी	0.03.51	351
			1049/2बी	शुष्क	निजी	0.41.16	4116
			1049/3बी	शुष्क	निजी	0.02.80	280
			1049/4बी	शुष्क	निजी	0.12.16	1216
			1049/5	शुष्क	निजी	0.21.00	2100
			1049/6	शुष्क	निजी	0.06.50	650
			1049/7ए	शुष्क	निजी	0.03.83	383
			1049/8ए	शुष्क	निजी	0.16.05	1605
			1049/9ए	शुष्क	निजी	0.01.90	190
			1050/7बी	शुष्क	निजी	0.05.78	578
			1050/8बी	शुष्क	निजी	0.13.80	1380
			1050/9ए	शुष्क	निजी	0.11.60	1160
			1050/10ए	शुष्क	निजी	0.03.63	363
			1050/11	शुष्क	निजी	0.08.00	800
			1050/12	शुष्क	निजी	0.05.00	500
			1050/13ए	शुष्क	निजी	0.17.25	1725
			1050/14	शुष्क	निजी	0.04.50	450
			1050/15ए	शुष्क	निजी	0.02.59	259
			1170/1ए	नम	निजी	0.08.00	800
			1170/1बी1	नम	निजी	0.05.61	561
			1170/2ए	नम	निजी	0.31.40	3140
			1170/3ए	नम	निजी	0.53.70	5370
			1170/4ए	नम	निजी	0.09.00	900
			1170/5ए	नम	निजी	0.08.80	880
			1170/6ए	नम	निजी	0.23.46	2346
			1177/1ए	शुष्क	निजी	0.04.35	435
			1177/2	नम	निजी	0.45.50	4550

1	2	3	4	5	6	7	8
			1177/3ए	नम	निजी	0.01.78	178
			1179/1ए	नम	निजी	0.11.50	1150
			1179/1बी1ए	नम	निजी	0.08.14	814
			1179/2ए	नम	निजी	0.14.00	1400
			1179/2बी1	नम	निजी	0.01.85	185
			1179/4ए	नम	निजी	0.16.68	1668
			1179/5ए	नम	निजी	0.38.60	3860
			1180/1ए	नम	निजी	0.20.24	2024
			1180/2	नम	निजी	0.32.50	3250
			1180/3ए	नम	निजी	0.03.34	334

[फा. सं. भाराराप्रा/तक/15/आरआर/एलए/कन्याकुमारी]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2005

S.O. 110(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied, that the land, the brief description of which is given in the Schedule, is required for public purpose of building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No.7 including the bypass on the stretch from km 203 to km 232 of Madurai-Kanniyakumari Section in the District of Kanniyakumari in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land for the aforesaid purpose;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification, raise objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Kanniyakumari District, Tamil Nadu, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act, shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the office of the said competent authority.

### SCHEDULE

Brief description of land with or without structures to be acquired on National Highway No.7 from km 203 to km 232 in Kanniyakumari District in the State of Tamil Nadu.

Sl. No	Name of Taluk	Name of the Village	Survey Number	Nature of land	Type of land	Area of land in Hectare	Area of land in Sqm.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agastheeswaram	Alagappapuram	754/3B	Dry	Private	0.07.27	727
			754/4B	Dry	Private	0.00.36	36
			754/11B	Dry	Private	0.17.05	1705
			754/12	Dry	Private	0.06.00	600
			755/5B	Dry	Private	0.06.25	625
			755/6	Dry	Private	0.11.50	1150
			755/7A1	Dry	Private	0.04.08	408
			755/7B1	Dry	Private	0.03.68	368
			755/8A	Dry	Private	0.00.65	65
			755/9A	Dry	Private	0.10.05	1005
			755/10	Dry	Private	0.11.50	1150
			755/11B	Dry	Private	0.04.50	450
			755/15B	Dry	Private	0.00.51	51
			755/16B	Dry	Private	0.08.90	890
			755/17	Dry	Private	0.11.50	1150
			755/18A	Dry	Private	0.06.70	670
			759/4B	Dry	Private	0.07.35	735
			759/6A	Dry	Private	0.13.20	1320
			772/1B	Dry	Private	0.05.58	558
			772/2B	Dry	Private	0.62.35	6235
			772/3A	Dry	Private	0.04.90	490
			773/2B	Dry	Private	0.10.52	1052
			773/4B	Dry	Private	0.01.15	115
			773/5B	Dry	Private	0.14.12	1412
			773/6A	Dry	Private	0.19.52	1952
			773/7A	Dry	Private	0.17.88	1788
			773/9A	Dry	Private	0.05.50	550
			774/1B	Dry	Private	0.00.70	70
			774/2B	Dry	Private	0.04.22	422
			774/3B	Dry	Private	0.09.77	977
			774/4	Dry	Private	0.09.50	950
			774/5A	Dry	Private	0.07.50	750
			774/6A	Dry	Private	0.02.14	214
			774/7A	Dry	Private	0.01.37	137
			775/1B	Dry	Private	0.08.81	881
			775/2A	Dry	Private	0.11.22	1122
			775/3A	Dry	Private	0.01.10	110
			775/5A	Dry	Private	0.01.15	115
			775/6A	Dry	Private	0.15.45	1545

1	2	3	4	5	6	7	8
			775/7A	Dry	Private	0.09.56	956
			775/8A	Dry	Private	0.03.61	361
			776/6B	Dry	Private	0.00.98	98
			776/10B	Dry	Private	0.07.75	775
			776/11	Dry	Private	0.07.00	700
			776/12B	Dry	Private	0.04.15	415
			776/14B	Dry	Private	0.04.85	485
			776/15	Dry	Private	0.07.00	700
			776/16	Dry	Private	0.07.00	700
			776/17	Dry	Private	0.06.50	650
			776/18A	Dry	Private	0.06.03	603
			874/2	Dry	Private	0.06.00	600
			874/3	Dry	Private	0.05.50	550
			874/4	Dry	Private	0.05.50	550
			874/5	Dry	Private	0.03.50	350
			874/7B	Dry	Private	0.13.35	1335
			874/8	Dry	Private	0.15.50	1550
			874/9	Dry	Private	0.03.00	300
			874/10	Dry	Private	0.04.00	400
			874/11	Dry	Private	0.03.50	350
			874/12A	Dry	Private	0.03.44	344
			874/14A	Dry	Private	0.00.18	18
			874/15A	Dry	Private	0.10.35	1035
			874/16A	Dry	Private	0.03.98	398
			874/17A	Dry	Private	0.01.08	108
			879/6B	Dry	Private	0.12.72	1272
			879/15B	Dry	Private	0.06.50	650
			879/17B	Dry	Private	0.03.55	355
			879/18	Dry	Private	0.05.50	550
			879/19	Dry	Private	0.08.50	850
			879/20	Dry	Private	0.04.50	450
			879/21	Dry	Private	0.05.50	550
			879/22	Dry	Private	0.07.00	700
			880/2B	Dry	Private	0.10.55	1055
			880/3B	Dry	Private	0.00.76	76
			880/5B	Dry	Private	0.13.66	1366
			880/6A	Dry	Private	0.14.16	1416
			880/7A	Dry	Private	0.21.30	2130
			880/9B	Dry	Private	0.04.20	420
			881/1A	Dry	Private	0.07.18	718
			881/2A	Dry	Private	0.05.15	515
			882/1B	Dry	Private	0.35.33	3533
			882/2	Dry	Private	0.10.00	1000
			882/3B	Dry	Private	0.03.83	383
			882/4B	Dry	Private	0.05.60	560
			882/5A	Dry	Private	0.08.72	872
			882/6B	Dry	Private	0.15.61	1561
			882/7A	Dry	Private	0.14.74	1474
			883/12B	Dry	Private	0.01.89	189



1	2	3	4	5	6	7	8
			968/1B	Dry	Private	0.48.80	4880
			968/2B	Dry	Private	0.26.72	2672
			968/3A1	Dry	Private	0.26.80	2680
			968/3B	Dry	Private	0.17.00	1700
			968/4A	Dry	Private	0.09.66	966
			968/5A	Dry	Private	0.09.50	950
			968/5B	Dry	Private	0.10.00	1000
			968/5C1	Dry	Private	0.04.00	400
			973/2	Dry	Private	0.09.50	950
			973/3A	Dry	Private	0.03.84	384
			973/5A	Dry	Private	0.06.00	600
			973/6A	Dry	Private	0.11.86	1186
			973/7A	Wet	Private	0.05.85	585
			973/8B	Wet	Private	0.08.84	884
			973/9B	Wet	Private	0.11.30	1130
			973/19	Wet	Private	0.09.50	950
			973/20	Wet	Private	0.08.50	850
			973/21A	Wet	Private	0.13.00	1300
			974/1B	Wet	Private	0.02.55	255
			974/2B	Wet	Private	0.44.17	4417
			974/3A	Wet	Private	0.66.00	6600
			974/5A	Wet	Private	0.02.18	218
			975/5A2	Wet	Private	0.02.73	273
			975/5B2	Wet	Private	0.10.83	1083
			975/6B	Wet	Private	0.04.70	470
			975/7B	Wet	Private	0.17.90	1790
			986/2B	Wet	Private	0.16.40	1640
			986/3B	Dry	Private	0.27.19	2719
			986/4A	Wet	Private	0.34.70	3470
			986/5A	Wet	Private	0.12.50	1250
			986/5B1	Wet	Private	0.19.65	1965
			988/2	Wet	Private	0.46.10	4610
			989/3B	Wet	Private	0.23.65	2365
			989/4A	Wet	Private	0.20.26	2026
			994/1	Wet	Private	0.07.50	750
			994/2A	Wet	Private	0.06.28	628
			994/3B	Wet	Private	0.40.28	4028
			994/6B	Wet	Private	0.30.12	3012
			994/10B	Wet	Private	0.04.40	440
			994/12	Wet	Private	0.08.00	800
			995/1B	Wet	Private	0.00.31	31
			995/11B	Wet	Private	0.05.35	535
			995/12B	Wet	Private	0.02.46	246
			995/13	Wet	Private	0.10.50	1050
			995/15A	Wet	Private	0.11.27	1127
			996/1B	Wet	Private	0.19.28	1928
			996/9A1A	Wet	Private	0.35.94	3594
			996/9A2A	Wet	Private	0.11.97	1197
			996/9B	Wet	Private	0.07.50	750
			996/10	Wet	Private	0.06.50	650

1	2	3	4	5	6	7	8
			996/11	Wet	Private	0.08.00	800
			1006/8B	Dry	Private	0.01.43	143
			1006/10B	Dry	Private	0.03.85	385
			1010/1B	Dry	Private	0.15.16	1516
			1010/2B	Dry	Private	0.07.27	727
			1010/3	Dry	Private	0.09.00	900
			1010/4A	Dry	Private	0.10.65	1065
			1013/1B	Dry	Private	0.43.15	4315
			1013/2A	Dry	Private	0.38.39	3839
			1014/2B	Dry	Private	0.49.35	4935
			1015/2B	Dry	Private	0.26.90	2690
			1017/1A1	Dry	Private	0.02.42	242
			1017/1C1	Dry	Private	0.00.74	74
			1018/1B	Dry	Private	1.04.35	10435
			1023/1A2	Dry	Private	0.74.65	7465
			1023/1B2	Dry	Private	0.14.42	1442
			1023/1C2	Dry	Private	0.74.72	7472
			1023/2B	Dry	Private	0.17.05	1705
			1024/1A	Dry	Private	0.04.72	472
			1024/2A	Dry	Private	0.14.53	1453
			1025/1A	Dry	Private	0.03.05	305
			1046/1B	Dry	Private	0.10.85	1085
			1046/2	Dry	Private	0.09.00	900
			1046/4A	Dry	Private	0.06.30	630
			1046/5B	Dry	Private	0.08.05	805
			1046/6A	Dry	Private	0.03.00	300
			1046/6B1	Dry	Private	0.04.20	420
			1046/7A2	Dry	Private	0.08.00	800
			1046/7B2	Dry	Private	0.16.50	1650
			1046/13B	Dry	Private	0.02.77	277
			1046/14	Dry	Private	0.20.00	2000
			1046/15	Dry	Private	0.03.00	300
			1047/1A	Dry	Private	0.11.35	1135
			1049/1B	Dry	Private	0.03.51	351
			1049/2B	Dry	Private	0.41.16	4116
			1049/3B	Dry	Private	0.02.80	280
			1049/4B	Dry	Private	0.12.16	1216
			1049/5	Dry	Private	0.21.00	2100
			1049/6	Dry	Private	0.06.50	650
			1049/7A	Dry	Private	0.03.83	383
			1049/8A	Dry	Private	0.16.05	1605
			1049/9A	Dry	Private	0.01.90	190
			1050/7B	Dry	Private	0.05.78	578
			1050/8B	Dry	Private	0.13.80	1380
			1050/9A	Dry	Private	0.11.60	1160
			1050/10A	Dry	Private	0.03.63	363
			1050/11	Dry	Private	0.08.00	800
			1050/12	Dry	Private	0.05.00	500
			1050/13A	Dry	Private	0.17.25	1725
			1050/14	Dry	Private	0.04.50	450

1	2	3	4	5	6	7	8
			1050/15A	Dry	Private	0.02.59	259
			1170/1A	Wet	Private	0.08.00	800
			1170/1B1	Wet	Private	0.05.61	561
			1170/2A	Wet	Private	0.31.40	3140
			1170/3A	Wet	Private	0.53.70	5370
			1170/4A	Wet	Private	0.09.00	900
			1170/5A	Wet	Private	0.08.80	880
			1170/6A	Wet	Private	0.23.46	2346
			1177/1A	Dry	Private	0.04.35	435
			1177/2	Wet	Private	0.45.50	4550
			1177/3A	Wet	Private	0.01.78	178
			1179/1A	Wet	Private	0.11.50	1150
			1179/1B1A	Wet	Private	0.08.14	814
			1179/2A	Wet	Private	0.14.00	1400
			1179/2B1	Wet	Private	0.01.85	185
			1179/4A	Wet	Private	0.16.63	1668
			1179/5A	Wet	Private	0.38.60	3860
			1180/1A	Wet	Private	0.20.24	2024
			1180/2	Wet	Private	0.32.50	3250
			1180/3A	Wet	Private	0.03.34	334

[F. No. NHAI/Tech/15/RR/LA/Kanniyakumari]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.